



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे  
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004  
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1<sup>st</sup> FLOOR, GM'S OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004  
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/27/25/14 दिनांक: 21.12.2022

प्रति,  
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 346/2022

**विषय:-** Extension of date for finalization of e-APARs of 2021-22 through HRMS – reg.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. PC-VII/2020/HRMS/23 दिनांक: 09.12.2022 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-


**Web-site-**

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

**Share Folder-**

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

  
21.12.22

(अशोक कुमार शर्मा)  
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)  
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

No. PC-VII/2020/HRMS/23

New Delhi, dated: 09.12.2022


The Principal Chief Personnel Officers  
All Indian Railways/PUs  
(As per standard mailing list)

**Sub: Extension of date for finalization of e-APARs of 2021-22 through HRMS –reg**

**Ref: Board's letter No. PC-VII/2020/HRMS/23 dated 01.12.2022**

In continuation of Board's letter of even number dated 01.12.2022 (referred above) extending the deadline for filing the self appraisal through e-APAR module of HRMS till 07.12.2022, it has now been decided by the Competent Authority to extend the window for submitting the self appraisal and reporting upto **13.12.2022**.

2. There is no change with reference to the dates relating to the reviewing and accepting the APARs i.e. upto **15.12.2022**.
3. This issues with the approval of the Competent Authority.



(Jaya Kumar G)

Deputy Director, Pay Commission- VII & HRMS

Email: [jaya.kumarg@gov.in](mailto:jaya.kumarg@gov.in)

Tele: 011-47845125

Copy to : GM/EPS/CRIS for necessary action please